


उत्तराखण्ड शासन
संस्कृत शिक्षा अनुभाग
संख्या-246 /XLII-1 /2018-05(02)2013
देहरादून: दिनांक 02 ~~जून~~ ^{जुलाई} 2018

कार्यालय ज्ञाप

संस्कृत शिक्षा विभाग में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्रथम अपील के निस्तारण हेतु उप सचिव, संस्कृत शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को अपीलीय अधिकारी नामित किया जाता है, जिनका विवरण निम्नवत् है:-


क्र०सं०	नाम/पदनाम	दूरभाष	ई-मेल आई०डी०
1	श्री जी०एस० भाकुनी, उप सचिव, संस्कृत शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।	9927699233	bhakunigs@gmail.com


(डॉ० भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

संख्या- 246 (1)/XLII-1 /2018- 05(02)2013 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. कुलसचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
3. सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार।
4. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. सम्बन्धित अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।


(डॉ० भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।